

प्रसापित किया जाता है कि इस मापी-
मुल्त में अप मरींग लाठा 100 (एकली)
है, जो कि सहायता अधियंता,
ग्रामीण, कार्बि विभाग, कार्बि अवर,
प्रमंडल, खेडिया के नाम से निर्गत
किया गया है, ।

A-191,
कार्यपालक अधियंता
ग्रामीण कार्बि विभाग
पर्य प० रोड़डा
2/9/21

Sch. XLV—Form No. 134

Rosera

DIVISION

Singhia

SUB-DIVISION

Measurement Book

No.— 1236
— 1236

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Name of Road:- T 01</u>						
<u>Maun - Belga under</u>						
<u>F. D. R. A.</u>						
<u>Authority:- executive</u>						
<u>Engineer R.W.D</u>						
<u>Works Dir. Rosesp</u>						
<u>Agency -</u>						
<u>Date of measurement -</u>						

<u>Record entry</u>					
<u>① Supplying filling Brick - bats and compacting it manually - do - do job</u>					
<u>$1 \times 28 \times 4.75 \times 2.70 = 359.10 \text{ m}^3$</u>					
<u>$2 \times 20 \times 2.45 \times 0.30 = 44.10 \text{ m}^3$</u>					
<u>$2 \times 15 \times 2.45 \times 0.25 = 18.38 \text{ m}^3$</u>					
<u>$\checkmark 1 \times 10 \times 2.50 \times 0.30 = 7.50 \text{ m}^3$</u>					
<u>$2 \times 5 \times 2.40 \times 0.20 = 4.80 \text{ m}^3$</u>					
<u>$4 \times 2.50 \times 2.38 \times 0.15 = 3.57 \text{ m}^3$</u>					
<u>$1 \times 35 \times 4.95 \times 2.75 = 476.44 \text{ m}^3$</u>					
<u>$2 \times 15 \times 3.75 \times 0.30 = 33.75 \text{ m}^3$</u>					
<u>$1 \times 20 \times 3.75 \times 0.25 = 18.75 \text{ m}^3$</u>					

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2X	8 X 3.50 X 0.20 =				11.20 m ³
3X	9 X 3.75 X 0.10 =				10.13 m ³
1X	6 X 3.85 X 0.25 =				5.78 m ³
✓ 1X	9 X 3.80 X 0.35 =				11.97 m ³
3X	3.40 X 3.75 X 0.30 =				10.13 m ³
					= 1015.58 m ³
1015.58 m³					
26/10/21					
S.C.C.					
26/10/21					
J.E Singla					
A.E Singla					

~~10/12~~

~~500~~
26/10/21

26/10/11 Singlet A Singlet
T C Singlet A Singlet

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Abstract of Qty and cost —</u>						
<u>(2) Supplying filling Brick bats and Compacting its normally do - do all - job</u>						
<u>Qty ride T.M.B</u>						
<u>P.18 = 1015.58 m³</u>						
<u>@ Rs 1724.29</u>						
<u>Per m³ = Rs 1751154=00</u>						
<u>② Add C.S.T +</u>						
<u>L.C @ 13% = Rs 227650=00</u>						
<u>= Rs 1978804=00</u>						
<u>Rupees Nineteen lakh Seventy eight thousand eight hundred four only</u>						
<u>26/10/21 26/10/21</u>						
<u>J.E Singla AE Singla</u>						
<u>Continuation</u>						